



SNBP International & Senior Secondary School, Chikhali, Pune.

Affiliation No. 1130703

Academic session 2024-25

NOTES

CLASS: 5

SUBJECT: हिंदी

Prepared By: Salma Bhatti ( )  
अनुच्छेद लेखन

LESSON- व्याकरण- चित्र वर्णन ,

चित्र वर्णन का अर्थ है- किसी भी चित्र को देखकर उसके बारे में लिखना या बोलना |किसी भी चित्र का वर्णन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

- १) पहले चित्र को बारीकी से देख लेना चाहिए।
  - २) चित्र में नज़र आ रही मुख्य बातों को बिंदुओं में लिख लेना चाहिए।
  - ३) चित्र में दिखाई दे रही वस्तुओं का वर्णन करते समय उसमें अपनी कल्पना के रंगों को भरना चाहिए।
  - ४) वाक्य रचना पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।
  - ५) उचित विराम चिन्हों का प्रयोग भी आवश्यक होता है।
- जैसे -



यह चित्र रेलवे प्लेटफार्म का है | जिसमें एक गाड़ी खड़ी है | गाड़ी के अंदर यात्री बैठे हुए हैं | एक कुली सिर पर सामान रखकर चल रहा है | जिस महिला का सामान है वह उनके साथ चल रही है | दूसरी तरफ दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं | कुछ लोग ट्रेन के बाहर खड़े बातें कर रहे हैं। एक महिला बैग हाथ में लिए हुए प्लेटफार्म पर खड़ी है। कुछ यात्री इधर-उधर जा रहे हैं। प्लेटफार्म पर आने जाने वालों की भीड़ लगी है।

## व्याकरण- अनुच्छेद लेखन

अनुच्छेद लेखन- लघु लेख को ही अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद कुछ वाक्यों में लिखा जाता है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए-

- १) विषय पर मन में अच्छी तरह विचार करें।
- २) वाक्य बड़े नहीं होने चाहिए।
- ३) भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए।
- ४) किसी वाक्य को बार-बार नहीं दोहराना चाहिए।
- ५) विचारों का आपस में तालमेल होना चाहिए।

‘जीवन में खेलकूद का महत्व’ विषय पर अनुच्छेद लिखिए।

स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति ही ठीक प्रकार से अपने दिमाग का विकास कर सकता है। मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। स्वस्थ रहने के लिए अनेक उपाय हैं, जिसमें खेलकूद का सबसे अधिक योगदान होता है। यदि शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है, तो खेलों से शरीर का विकास होता है। रोगी व्यक्ति सदा अशांत और परेशान रहता है। उसकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है।

स्वस्थ शरीर, प्रकृति का एक वरदान है। जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, वह हमेशा प्रसन्न रहता है। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति या तो व्यायाम करता है या खेल खेलता है। कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, खो-खो आदि खेलों से व्यायाम तो होता ही है, साथ- ही- साथ मनोरंजन भी होता है। यह स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा साधन है। इस प्रकार स्वास्थ्य और खेलकूद का गहरा संबंध होता है। बहुत से विद्यार्थी खेलकूद में भाग लेते हैं, मनोरंजन भी करते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ भी रखते हैं।

हमारा भी कर्तव्य है कि हम खेलों के प्रति समर्पित हो और उनमें भागीदारी कर अपना और अपने देश का नाम ऊँचा करें।